

Roll No.

Total Printed Pages - 16

F - 124

M.Com. (Fourth Semester)
EXAMINATION, May - June, 2022
[Group - C: Banking and Insurance(Optional)]
Paper First
[BANKING PRACTICES]

Time : Three Hours]

[Maximum Marks:80

नोट : निर्देशानुसार सभी खण्डों के उत्तर दीजिये।

Note : Attempt all the sections as directed.

खण्ड - अ

(Section - A)

वस्तुनिष्ठ/बहुविकल्पीय प्रश्न

(Objective/Multiple Choice Questions)

(1 mark each)

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Note : Attempt all the questions.

सही उत्तर का चयन कीजिये।

Choose the correct answer.

P.T.O.

[2]

1. चालू खाते मुख्य रूप से किसके द्वारा खोले जाते हैं:

- (A) पेशेवर
- (B) किसान
- (C) वेतन भोगी कर्मचारी
- (D) उद्योगपति एवं व्यापारी

Current Accounts are mainly opened by:

- (A) Professionals
- (B) Agriculturalist
- (C) Salaried class people
- (D) Trading & industrial concern

2. बैंक की प्रथित पूंजी अधिकृत पूंजी के कितने प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

- (A) 40%
- (B) 50%
- (C) 60%
- (D) इनमें से कोई नहीं

Subscribed capital of a bank should not be less than what percentage of authorised capital:

- (A) 40%
- (B) 50%
- (C) 60%
- (D) None of these

F - 124

[3]

3. गैर-निष्पादनीय सम्पत्ति को.....में रखा जा सकता है

- (A) उप-मानक सम्पत्तियों में
- (B) सन्देहप्रद सम्पत्तियों में
- (C) नष्ट सम्पत्तियों में
- (D) ये तीनों

Non-performing assets may also be placed as

- (A) Sub - Standard assets
- (B) Doubtful assets
- (C) Loss assets
- (D) All these above

4. धनादेश (चेक) को सुरक्षित करने का श्रेष्ठ तरीका है:

- (A) सामान्य रेखांकन
- (B) दोहरा रेखांकन
- (C) विशेष रेखांकन
- (D) अकाउंट पेयी रेखांकन

The safest form of crossing is:

- (A) General crossing
- (B) Double crossing
- (C) Special crossing
- (D) Account payee crossing

[4]

5. भुनाये गये विपत्रों पर छूट है?

- (A) आय
- (B) उपार्जित आय
- (C) अग्रिम प्राप्त आय
- (D) दायित्व

Rebate on bills discounted is:

- (A) An Income
- (B) Accrued Income
- (C) An income received in Advance
- (D) Liability

6. MICR से आशय है:

- (A) मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन
- (B) मैग्नेटिक इंक कम्पनी रिकॉग्निशन
- (C) मैग्नेटिक इंक क्रॉस रिकॉग्निशन
- (D) मैग्नेटिक इंक कम्प्यूनिटी रिकॉग्निशन

MICR stands for:

- (A) Magnetic Ink Character Recognition
- (B) Magnetic Ink Company Recognition
- (C) Magnetic Ink Cross Recognition
- (D) Magnetic Ink Community Recognition

[5]

7. बैंकिंग कम्पनी अधिनियम की धारा 17 के अनुसार वैधानिक कोष की दर क्या है?

- (A) 10%
- (B) 15%
- (C) 20%
- (D) 25%

What is the rate of statutory reserve under section 17 of Banking Companies Act?

- (A) 10%
- (B) 15%
- (C) 20%
- (D) 25%

8. जो धनादेश रेखांकित नहीं है, कहलाता है:

- (A) अरेखांकित चेक
- (B) खुला चेक
- (C) आदेश चेक
- (D) वाहक चेक

A cheque which is not crossed is called

- (A) Uncrossed Cheque
- (B) Open Cheque
- (C) Order Cheque
- (D) Bearer Cheque

[6]

9. किस प्रकार के खाताधारकों को बैंक ओवर ड्राफ्ट की सुविधा है।

- (A) बचत खाता धारक
- (B) चालू खाता धारक
- (C) मियादी जमा धारक
- (D) आवर्ती जमा खाता धारक

Which type of account holder has the permission of over-draw the amount from his/her account.

- (A) Saving account holder
- (B) Current account holder
- (C) Fixed deposit account holder
- (D) Recurring deposit account holder

10. किस वर्ष से बैंकिंग के वार्षिक खाते नये प्रारूप में बनाये जाते हैं:

- (A) 2008 - 09
- (B) 2010 - 11
- (C) 2011 - 12
- (D) 2012 - 13

From which year annual accounts of a banking company are prepared in new format?

- (A) 2008 - 09
- (B) 2010 - 11
- (C) 2011 - 12
- (D) 2012 - 13

[7]

11. भारतीय रिजर्व बैंक नि.लि. में से किस दर का निर्धारण नहीं करता है?

- (A) बैंक दर
- (B) रिवर्स रेपो दर
- (C) आयकर दर
- (D) रेपो दर

Which of the following rate is not determined by the Reserve Bank of India.

- (A) Bank Rate
- (B) Reserve Repo Rate
- (C) Income Tax Rate
- (D) Repo rate

12. वह कम्पनी जो मांग जमा को स्वीकार करती है, कहलाती है:

- (A) बैंकिंग कम्पनी
- (B) संयुक्त स्कंध कम्पनी
- (C) निर्माणी कम्पनी
- (D) आई.टी.कम्पनी

A company who accepts demand deposits is called:

- (A) Banking Company
- (B) Joint Stock Company
- (C) Manufacturing Company
- (D) IT Company

[8]

13. एक रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं:

- (A) भारत के राष्ट्रपति के
- (B) भारत के प्रधान मंत्री के
- (C) भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के
- (D) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव के

One rupee note bear the signature of:

- (A) President of India
- (B) Prime Minister of India
- (C) Governor of RBI
- (D) Secretary of Ministry of India

14. एक बैंकिंग कम्पनी जिसका लाइसेंस निरस्त हो गया है, अपील कर सकती है:

- (A) उच्च न्यायालय में
- (B) उच्चतम न्यायालय में
- (C) भारतीय रिजर्व बैंक में
- (D) केन्द्र सरकार

A banking company whose license is cancelled may appeal to the:

- (A) High Court
- (B) Supreme Court
- (C) RBI
- (D) Central Government

[9]

15. निम्नलिखित में से कौन से तीन प्रकार के साइबर हमले मोबाइल बैंकिंग की प्रक्रिया में हो सकते हैं

- (1) बैकडोर अटैक
- (2) फ्रंटडोर अटैक
- (3) डिनायल ऑफ सर्विस अटैक
- (4) डायरेक्ट एक्सेस अटैक

- (A) 1, 2 and 3
- (B) 2, 3 and 4
- (C) 1, 2 and 4
- (D) 1, 3 and 4

Three types of cyber-attacks that may occur in the process of mobile banking

- (1) Back door attack
- (2) Front door attack
- (3) Denial of service attack
- (4) Direct access attack

- (A) 1, 2 and 3
- (B) 2, 3 and 4
- (C) 1, 2 and 4
- (D) 1, 3 and 4

[10]

16. भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ?

- (A) 2 सितम्बर 1950
- (B) 19 मार्च 1947
- (C) 1 जनवरी 1949
- (D) 26 जनवरी 1950

When was Reserve Bank of India nationalised?

- (A) 2nd September 1950
- (B) 19th March 1947
- (C) 1st January 1949
- (D) 26th January 1950

17. कृषि कार्यों के लिए वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च संगठन है।

- (A) नाबार्ड
- (B) एक्सिम बैंक
- (C) आर.बी. आई.
- (D) आई. डी. बी. आई

The apex institution in agricultural finance is.

- (A) NABARD
- (B) Exim Bank
- (C) RBI
- (D) IDBI

[11]

18. धनादेश (चेक) की वैधता अवधि होती है

- (A) चेक की निर्गमन तिथि से चार महीनों तक
- (B) चेक की निर्गमन तिथि से तीन महीनों तक
- (C) चेक की निर्गमन तिथि से एक माह तक
- (D) असीमित अवधि

What is validity period at cheque?

- (A) 4 month from date of issue
- (B) 3 months from date of issue
- (C) 1 month from date of issue
- (D) Unlimited period

19. एन.ई.एफ.टी. का विस्तार है:

- (A) नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर
- (B) न्यूट्रल इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर
- (C) नॉमिनल इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर
- (D) नेचुरल इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर

Expand NEFT

- (A) National Electronic Fund Transfer
- (B) Neutral Electronic Fund Transfer
- (C) Nominal Electronic Fund Transfer
- (D) Natural Electronic fund Transfer

F - 124

P.T.O.

[12]

20. के. वाई. सी. का मतलब है:

- (A) अपने कार्ड को जानो
- (B) अपने लागत को जानो
- (C) अपने ग्राहक को जानो
- (D) अपने लेनदार को जानो

KYC means:

- (A) Know your card
- (B) Know your cost
- (C) Know your customer
- (D) Know your creditor

खण्ड - ब

Section - B

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

(Very Short Answer Type Questions)

(2 marks each)

नोट: सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दो से तीन वाक्यों में उत्तर दीजिए।

Note: Attempt all questions. Write in two-three sentences:

1. बैंक के ग्राहक को परिभाषित कीजिए।

Define the term customer of a bank.

2. बैंक के विशिष्ट ग्राहक कौन-कौन से हैं? नाम बताइए।

F - 124

[13]

Who are the special customers of Bank? Name them.

3. वाणिज्यिक बैंकों को परिभाषित कीजिए।

Define Commercial Banks.

4. टेली बैंकिंग से आप क्या समझते हैं?

What do you mean by tele Banking?

5. चेकों के रेखांकन के प्रकार बताइए।

Explain the types of crossing of a cheque.

6. पृष्ठांकन के उद्देश्य क्या हैं? लिखिए।

Write the aims of endorsement.

7. ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है?

What is the meaning of Green Banking?

8. ग्रहणाधिकार को समझाइए।

Explain Lien.

खण्ड - स

Section - C

लघु उत्तरीय प्रश्न

(Short Answer Type Questions)

(3 marks each)

नोट: किन्हीं आठ प्रश्नों के उत्तर दीजिये। (अधिकतम 75 शब्द)

Note: Attempt any eight questions. [Maximum 75 words]

1. बैंक में निक्षेपों के विभिन्न प्रकार बताइए।

[14]

Discuss various types of deposits in a Bank.

2. बैंक की पूंजी संरचना तथा वैधानिक कोष को समझाइए।

Explain the capital structure and statutory reserve of a bank.

3. मर्चेंट बैंक के कार्य समझाइए।

Explain the functions of merchant Bank.

4. बैंकों के निजीकरण से क्या समझते हैं?

What do you understand by the privatization of Banks.

5. रिजर्व बैंक देश की साख नीति को कैसे नियंत्रित करता है?

How does Reserve Bank of India control the credit policy of the country?

6. सहकारी बैंक संबंधी प्रावधानों को समझाइए।

Explain the provisions applicable to co-operative Banks.

7. इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या है इसके लाभ क्या हैं?

What is electronic cheque? What are the advantages of it.

8. बैंकों द्वारा उधार देने के लिए अपनाएं जाने वाले तीन महत्वपूर्ण सिद्धांत बताइए।

Write three important principle followed by the Banks for lending money.

9. इंस्टैंट इनकम (ब्याज से प्राप्त आय) क्या है? इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 80TTA का क्या प्रावधान है?

What is interest income? What is the provision for it un-

[15]

der section 80TTA of Income Tax Act.

10. जब एक बैंक जीवन बीमा पॉलिसी की प्रतिभूति पर अग्रिम देता है तो उसे क्या सावधानी रखनी चाहिए।

When a banker decides to grant advance against life Insurance policy what precautions should be taken by him.

खण्ड - द

Section - D

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

(Long Answer Type Questions)

(5 marks each)

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में हो।

Note : Attempt all questions. Answer each question in 150 words.

1. रिजर्व बैंक देश की साख नीति को कैसे नियंत्रित करता है?

How does Reserve Bank of India control the credit policy of the country.

2. साख पत्र के प्रकार बताइए।

Write the types of letter of credit.

3. संग्राहक बैंकर के कर्तव्य एवं दायित्व बताइए।

What are the duties and responsibilities of collecting Banker.

[16]

4. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए

बैंकों का एकीकरण।

अथवा

सहकारी बैंक संबंधी प्रावधान

Write short Notes :

Amalgamation of Banks

OR

Provisions applicable to co - operative Banks